

सूचना का अधिकार  
अधिनियम 2005 की धारा (4) के अधीन

कार्यालय कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग,  
छिंदवाडा (म.प्र.)

लोक प्राधिकारियों का दायित्व  
01 अक्टूबर 2005


**सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, छिंदवाडा के लोक प्राधिकारियों का दायित्व**

1. संगठनात्मक परिचय:—

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, छिंदवाडा के अन्तर्गत छिंदवाडा जिले के ग्यारह विकासखण्ड के कार्य क्षेत्र में आते हैं। इसके अन्तर्गत 6 उपसंभाग कार्यरत हैं। ये उपसंभाग छिंदवाडा, सौसर, पांडुर्णा, तामिया, अमरवाडा एवं जुन्नारदेव में स्थापित हैं।

इस कार्यालय के कार्यालयीन संरचना के अन्तर्गत मुख्यतः तीन कक्ष कार्यरत हैं। कार्य कक्ष के अन्तर्गत सिंचाई योजनाओं की तकनीकी कार्य, लेखा कक्ष के अन्तर्गत योजनाओं के निविदा आमंत्रण, ठेकेदारों के भुगतान एवं बजट से संबंधित कार्य किया जाता है। इसी प्रकार स्थापना कक्ष के अन्तर्गत अधीनस्थ कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन आहरण, सर्विस रिकार्ड, सामान्य प्रशासनिक कार्य इत्यादि संपादित किये जाते हैं।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाडा (म.प्र.)



## 2.0 संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य (अध्याय 2)

2.1	लोक प्राधिकरण के उद्देश्य	छिंदवाडा जिले के ग्यारह विकासखण्ड में स्थित छिंदवाडा, चौरई, हरई, अमरवाडा, तामिया, जामई, परासिया, मोहखेड, बिछुआ, सौसर, पांडुर्णा सिंचाई योजनाओं का रखरखाव सर्वेक्षण एवं निर्माण का दायित्व
2.2	लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन	कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई क्षमता में वृद्धि तथा निर्मित योजनाओं से कमाण्ड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना।
2.3	लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग का कार्यालय, छिंदवाडा में दिनांक ( प्रारंभ किया गया है )
2.4	लोक प्राधिकरण के कर्तव्य	कार्य क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण निर्माण एवं रखरखाव।
2.5	लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य	
2.6	लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण	
2.7	लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा	छिंदवाडा, सौसर, पांडुर्णा, तामिया एवं अमरवाडा, जुन्नारदेव में एक-एक उपसंभाग कार्यरत है।
2.8	लोक प्राधिकरण की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएं	निरंक
2.9	जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था	
2.10	जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था	
2.11	मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते (कृपया पतों का जनपदवार वर्गीकरण करें)	कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, छिंदवाडा 48001
2.12	कार्यालय के खुलने का समय : कार्यालय के बन्द होने का समय :	प्रातः 10.30 बजे सायं : 5.30 बजे

### 3.0 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

पद का नाम	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाडा	
शक्तियां	प्रशासकीय वित्तीय अन्य	संभाग के अधीन समस्त अधिकारियों का प्रशासनिक नियंत्रण। क्षेत्र की सभी सिंचाई योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति (200 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता वाली) रु. 50 हजार तक सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति, मुख्य अभियंता, बैनगंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी से प्राप्त बजट आवंटन पर नियंत्रण एवं वितरण
कर्तव्य	योजनाओं का लक्ष्यानुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण, सर्वेक्षण एवं रखरखाव आदि	

#### अधिनस्थ कर्मचारियों के कर्तव्य

क्रमांक	कक्ष	कर्तव्य एवं कार्य
1	स्थापना कक्ष	स्थापना के कार्य एवं संबंधितों का वेतन आदि के रिकार्ड का संधारण एवं सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी कार्यों का संचालन
2	सामान्य कक्ष	वित्तीय विषयों यथा बजट, आवंटन, व्यय, निविदाएँ आदि का संचालन एवं नियंत्रण का कार्य
3	तकनीकी कक्ष	योजनाओं के तकनीकी विषयों से संबंधित दस्तावेजों का संधारण, निर्माण कार्यों का रूपांकन, गुणवत्ता नियंत्रण, रखरखाव एवं तकनीकी स्वीकृति संबंधी कार्यों का संधारण

#### 4.0 कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

##### अधिनियम

1. म.प्र. सिंचाई अधिनियम 1931
2. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999
3. म.प्र. लेखा संहिता

##### मैनुअल

1. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-1
2. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-2
3. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-3

##### नियम

1. म.प्र. सिंचाई अभियांत्रिकी एवं भू-भौतिकी (राजपत्रित भर्ती नियम 1965)
2. म.प्र. सिंचाई (अराजपत्रित) भर्ती नियम 1969

##### परिपत्र

1. म.प्र. जल संसाधन विभाग द्वारा जारी समस्त तकनीकी परिपत्र
2. म.प्र. जल संसाधन विभाग की प्रचलित एकीकृत दर सूची 2003
3. म.प्र. जल संसाधन विभाग के स्पेसिफिकेशन्स

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और  
अभिलेख की प्रति कहां से

पता : कार्यालय कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग, छिंदवाडा

इन्दौर

प्राप्त कर सकते हैं?

छिंदवाडा-480001

दूरभाष : 07162-248586

फैक्स : -

ई-मेल : -

अन्य : -

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख : विभागीय प्रावधान अनुसार  
की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क :  
(यदि कोई हो)

## 5.0 नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण

### 5.1 नीति निर्धारण हेतु :

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है ? ( नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1	जल उपयोगिता समिति	हां	जिले से संलग्न कृषक एवं कलेक्टर द्वारा मनोनीत सदस्य
2	जल उपभोक्ता संथायें कुल 39	हां	अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचित सदस्य

### 5.2 नीति के कार्यान्वयन हेतु :

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1	सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी	हां	सिंचाई प्रबंधन अधिनियम 1999 की व्यवस्था अनुसार

**6.0 लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों ,बंजमहवतपमेद्ध के अनुसार विवरण**

**(अ) कार्य कक्ष द्वारा संधारित किये जा रहे अभिलेखों का विवरण**

स. क्रं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार; यथा सूक्ष्म फिल्म, रजिस्टर, पुस्तकें, डिस्क इत्यादि	दस्तावेज की प्रकृति एवं विवरण	अभिलेखों की अवधि
1	2	3	4	6
1	सिंचाई कार्यों के लिये तकनीकी परित्रों का संचालन	पुस्तक	तकनीकी परिपत्र एवं निर्देश	
2	म.प्र. कार्य / विभाग मुनुअल भाग-	पुस्तक	विभाग में कार्य करने हेतु निर्देश एवं अधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य	
3	प्रशासकीय स्वीकृति	रजिस्टर	सिंचाई कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण	
4	तकनीकी स्वीकृति	रजिस्टर	सिंचाई कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का विवरण	
5	योजनावार सिंचाई का विवरण	रजिस्टर	प्रत्येक तालाब से की गई सिंचाई का लेखा-जोखा	
6	योजनावार राजस्व वसूली का विवरण	रजिस्टर	प्रत्येक तालाब से की गई राजस्व वसूली की जानकारी	
7	सर्वेक्षित योजना का विवरण	रजिस्टर	चिन्हित योजनायें	

**(ब) स्थापना कक्ष द्वारा संधारित किये जा रहे अभिलेखों का विवरण**

स. क्रं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार; यथा सूक्ष्म फिल्म, रजिस्टर, पुस्तकें, डिस्क इत्यादि	दस्तावेज की प्रकृति एवं विवरण	अभिलेखों की अवधि
1	2	3	4	6
1	सेवा के मूलभूत नियम	पुस्तक	सेवा शर्तें एवं पेंशन, अवकाश, यात्रा भत्ते आदि संबंधित नियम	
2	सेवा आचरण नियम	पुस्तक	कर्मचारियों के आचरण संबंधित नियम एवं निर्देश	
3	सा.भविष्य निधि अग्रिम	रजिस्टर	अधिकारी / कर्मचारी द्वारा लिये गये अग्रिम का ब्यौरा	
4	अग्रिम रजिस्टर	रजिस्टर	त्यौहार अग्रिम, अनाज अग्रिम, वाहन अग्रिम, गृह निर्माण एवं विभिन्न अग्रिम का विवरण	
5	गोपनीय प्रतिवेदन	रजिस्टर	गोपनीय प्रतिवेदन का विवरण	
6	यात्रा भत्ता रजिस्टर	रजिस्टर	अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत यात्रा देयकों का विवरण	
7	आकस्मिक अवकाश	रजिस्टर	आकस्मिक अवकाश का विवरण	
8	वेतन रजिस्टर	रजिस्टर	वेतन भत्तों की पृविष्टि	
9	सा. भविष्य निधि	रजिस्टर	मासिक कटौती का विवरण	
10	विभागीय भविष्य निधि	रजिस्टर	चतुर्थां श्रेणी कर्मचारी के	



			विभागीय भविष्य निधि कटौती का विवरण	
11	चिकित्सा रजिस्टर	रजिस्टर	अधिकारी / कर्मचारी के चिकित्सा देयक का विवरण	
12	भाड़ा अभिलेख	रजिस्टर	शासकीय आवास किराये का विवरण	
13	पेंशन रजिस्टर	रजिस्टर	पेंशन प्रकरणों का विवरण	
14	इन्कम्बेंसी	रजिस्टर	अधिकारी / कर्मचारी की इन्कम्बेंसी का विवरण	
15	आय-व्यय पत्रक	रजिस्टर	मासिक आय-व्यय के आंकड़ों की प्रविष्टि	
16	देयक	रजिस्टर	कोषालय को प्रस्तुत किये जाने वाले देयक की प्रविष्टि	

**(स) लेखा कक्ष द्वारा संधारित किये जा रहे अभिलेखों का विवरण**

स. क्रं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का प्रकार; यथा सूक्ष्म फिल्म, रजिस्टर, पुस्तकें, डिस्क इत्यादि	दस्तावेज की प्रकृति एवं विवरण	अभिलेखों की अवधि
1	2	3	4	6
1	लोक निर्माण संहिता	पुस्तक	लोक निर्माण कार्य से संबंधित विवरण	
2	लोक निर्माण लेखा संहिता	पुस्तक	लोक निर्माण लेखा संबंधि विवरण	
3	म.प्र. वित्त नियम	पुस्तक	लोक निर्माण कार्य के वित्तीय अधिकार	
4	कार्य की प्रचलित दरें (सी.एस. आर.)	पुस्तक	लोक निर्माण कार्य से संबंधित विस्तृत दरें	
5	भंडार नियम	पुस्तक	लोक निर्माण भंडार के विस्तृत नियमावली	
6	भंडार क्रय नियम	पुस्तक	भंडार क्रय से संबंधित नियम	
7	फार्म 80 ;ज्मससलद्ध	फार्म	लेखा तैयार किया जाता है समस्त उपखंड एवं संभाग का आय-व्यय	
8	फार्म 64	फार्म	संभाग के समस्त शिर्षों का मासिक खर्च	
9	निविदा पंजी	फार्म	संभाग से आमंत्रित सभी निविदाओं की जानकारी	
10	निविदा खोलने का रजिस्टर	फार्म	निविदा खोलने के पश्चात् प्राप्त निविदाओं की आयटम एवं दर सहित जानकारी	
11	अनुबंध पंजी	रजिस्टर	ठेकेदार से किये जाने वाले अनुबंध की माहिती	
12	मनीरसीद प्राप्ती	रजिस्टर	कोषालय से प्राप्त होने के पश्चात् प्रविष्टि	
13	चेक बुक प्राप्ती	रजिस्टर	कोषालय से प्राप्त करने के पश्चात् प्रविष्टि	

14	ठेकेदारों का खाता	रजिस्टर	ठेकेदारों के बिल भुगतान पश्चात् सभी की विस्तृत जानकारी	
15	ठेकेदारों के पंजीकरण	रजिस्टर	प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता कार्यालय में रजिस्ट्रेशन किये गये ठेकेदारों की जानकारी सभी श्रेणी के	
16	विविध अग्रिम पंजी	रजिस्टर	संभाग से दिये गये अग्रिम ठेकेदार/कर्मचारी/अन्य संभाग आदि की माहिती	
17	सिविल डिपाजिट	रजिस्टर	ठेकेदारों के रनिंग बिलों से वसूली गई राशि	
18	विविध जमा	रजिस्टर	अन्य संभाग एवं ठेकेदारों के विरुद्ध विविध जामा	
19	केस ,बेद्ध कर्मकार कल्याण उपकर	रजिस्टर	भारत सरकार द्वारा निर्माण कार्य पर लगाया गया 1: कर राशि	
20	फार्म-12 (भण्डार)	फार्म	संभाग एवं उपसंभाग में रखे गये भण्डार सामग्री की जानकारी	
21	फार्म-15 (टी.एण्ड पी.)	फार्म	संभाग एवं उपसंभाग में रखे गये टी.एण्ड पी. की जानकारी	
22	भण्डार के गोपनीय जांच	रजिस्टर	भण्डार सामग्री की गोपनीय जांच बाबत्	
23	कोर्ट प्रकरण	रजिस्टर	संभाग में चल रहे कोर्ट केस प्रकरणों की माहिती	
24	आय-व्यय प्रत्रक	रजिस्टर	संभाग में चल रहे निर्माण कार्य के मासिक आय एवं व्यय, कुल व्यय आदि की माहिती	
25	आयकर कटोत्रा	रजिस्टर	ठेकेदार के रनिंग बिलों से 2: आयकर वसूली	
26	वाणिज्य कर	रजिस्टर	ठेकेदार के बिलों से 2: वाणिज्य कर वसूली	
27	चेक कटोत्रा	रजिस्टर	संभाग एवं उपसंभाग में चेक काटने के पश्चात शीर्ष सहित वसूली संबंधी	
28	चालान रजिस्टर	रजिस्टर	संभाग से प्राप्त चेक एवं नगद राशि कोषालय में जमा करने बाबत्	
29	रेमिटेन्स	रजिस्टर	चालान जमा करने के पश्चात् चालन नंबर वाईज जानकारी	
30	माप पुस्तिका	रजिस्टर	उपखंडों को छोटी एवं बड़ी माप पुस्तिकायें प्रदाय की जाती है।	
31	शिकायत/लोकायुक्त प्रकरण	रजिस्टर	संभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत पंजी	
32	कार्यपालन यंत्री द्वारा माप चेक (मेजरमेंट चेक)	रजिस्टर	ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों की 10 जांच कार्यपालन यंत्री	

			द्वारा की जाती है।	
33	रिव्यू माप पुस्तिका	रजिस्टर	अंकेक्षणों द्वारा माप पुस्तिकाओं का रिव्यू किया जाता है।	
34	महालेखाकार निरीक्षण	रजिस्टर	निरीक्षण दल द्वारा राजस्व/सिविल कर कण्डीकाओं की जानकारी	
35	वर्क एबस्ट्रेक्ट	रजिस्टर	मरम्मत कार्य के व्यय की उपशीर्ष वार जानकारी	

### 7.0 बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण— सूची संलग्न है

1	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	— निरंक —
●	सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	—“—
●	संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)	—“—
	संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी / अन्य)	—“—
●	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	—“—
●	मुख्य अधिकारी का नाम	—“—
●	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	—“—
●	बैठक की आवृत्ति	—“—
●	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	—“—
●	क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं?	—“—
●	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें)	—“—

2	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	— निरंक —
•	सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	—“—
•	संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)	—“—
	संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी / अन्य)	—“—
•	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	—“—
•	मुख्य अधिकारी का नाम	—“—
•	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	—“—
•	बैठक की आवृत्ति	—“—
•	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	—“—
•	क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं?	—“—
•	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें)	—“—

3	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	— निरंक —
•	सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	—“—
•	संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)	—“—
	संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी / अन्य)	—“—
•	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	—“—
•	मुख्य अधिकारी का नाम	—“—
•	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	—“—
•	बैठक की आवृत्ति	—“—
•	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	—“—
•	क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं?	—“—
•	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें)	—“—

4	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	— निरंक —
•	सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	—“—
•	संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)	—“—
	संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी / अन्य)	—“—
•	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	—“—
•	मुख्य अधिकारी का नाम	—“—
•	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	—“—
•	बैठक की आवृत्ति	—“—
•	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	—“—
•	क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं?	—“—
•	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें)	—“—

5	सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता	— निरंक —
•	सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)	—“—
•	संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)	—“—
	संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी / अन्य)	—“—
•	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	—“—
•	मुख्य अधिकारी का नाम	—“—
•	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	—“—
•	बैठक की आवृत्ति	—“—
•	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	—“—
•	क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं?	—“—
•	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हां, तो प्रक्रिया का विवरण दें)	—“—



## 8.0 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

लोक प्राधिकरण का नाम : कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाडा

### सहायक लोक सूचना अधिकारी :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस टी डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री व्ही.सी. जैन	संभागीय लेखाधिकारी	07162	248586	—	—	—	जल संसाधन संभाग छिंदवाडा

### लोक सूचना अधिकारी :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस टी डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री के.सी. राठौर	कार्यपालन यंत्री	07162	248586	—	—	—	जल संसाधन संभाग छिंदवाडा

### विभागीय अपीलीय अथोरिटी :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस टी डी कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	श्री के.सी. जैन	अधीक्षण यंत्री (रूपांकन)	07162	220558	—	—	—	कार्यालय अधीक्षण यंत्री ज.स. मंडल छिंदवाडा

### 9.0 निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1	किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है? (सचिवालय मैनुअल और बिजीनेस मैनुअल के नियमों, आदि नियमों का उपयोग किया जा सकता है)	निम्नानुसार
9.2	किसी किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या हैं अथवा निर्णय लेने के लिए किस-किस स्तरों पर विचार किया जाता है?	निम्नानुसार
9.3	लिए गए निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था है?	आवश्यकता अनुसार पत्र के माध्यम से जनता को सूचित किया जाता है।
9.4	विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है?	कार्यालय में विभिन्न कार्यों के लिये अधिकारी नामांकित है।
9.5	अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकारित अधिकारी?	कार्यपालन यंत्री

### कार्यपालन यंत्री कार्यालय में निर्णय लेने की कार्य प्रणाली

क्रं.	कक्ष	प्रारंभिक कार्य करने वाला कर्मचारी अधिकारी	प्रत्येक स्तर पर जांच करने वाला अधिकारी / कर्मचारी	अंतिम निर्णय लेने वाला अधिकारी
1	2	3	4	5
1	कार्य कक्ष	मानचित्रकार सहायक मानचित्रकार	संलग्न अधिकारी	कार्यपालन यंत्री
2	लेखा कक्ष	वरिष्ठ लेखा लिपिक अंकक्षक	संभागीय लेखा अधिकारी	कार्यपालनयंत्री
3	स्थापना कक्ष	सहायक लिपिक ग्रेड-2	स्थापना लिपिक ग्रेड-1	कार्यपालन यंत्री
4	आबियाना कक्ष	राजस्व / सिंचाई लिपिक	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री

9.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है, उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	निविदा स्वीकृति, पंजीयन
दिशा-निर्देश (यदि हो तो)	निविदा समिति द्वारा
निर्णय लेने की प्रक्रिया	बैठक आयोजित कर
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के नाम	1. कार्यपालन यंत्री,
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	2. सहायक यंत्री (रूपांकन) 3. सहायक यंत्री (संबंधित) 4. संभागीय लेखापाल
निर्णय के विरुद्ध कहां और कैसे अपील करें।	निरंक

## 10.0 अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्रं.	नाम	पदनाम	एस.टी. डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री के.सी. राठौर	कार्यपालन यंत्री	07162	248586	244381	—	eewrdchhindwara@yahoo.co.in	जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा
2	श्री व्ही.एस. अवस्थी	अनुविभागीय अधिकारी	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
3	श्री एस.एस. मुकासदार	अनुविभागीय अधिकारी	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
4	श्री पी.एम. काले	अनुविभागीय अधिकारी	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
5	श्री व्ही.बी. श्रीवास्तव	अनुविभागीय अधिकारी	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
6	श्री आर.एम. कुरैशी	संलग्न अधिकारी	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
7	श्री प्रभाकर टेकाम	अनुविभागीय अधिकारी	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
8	श्री एन.के. नंदनवार	अनुविभागीय अधिकारी	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
9	श्री व्ही.सी. जैन	संभागीय लेखाधिकारी	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
10	श्री बी.के. तिवारी	उपयंत्री	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
11	श्री संतोष जैन	उपयंत्री	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
12	श्री बी. आर. राउत	उपयंत्री	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
13	श्री ए.ए. मेहतो	उपयंत्री	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
14	श्री डी.एल. डेहरिया	उपयंत्री	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
15	श्री जे.के. विश्वकर्मा	उपयंत्री	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
16	श्री ए.के. कालबांडे	उपयंत्री	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
17	श्री अतिकुलहक	उपयंत्री	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
18	श्री बी.आर. पराडकर	उपयंत्री	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
19	श्री डी.के. चौरसिया	उपयंत्री	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
20	श्री एच.के. पिल्ले	उपयंत्री	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
21	श्री एम.पी. कुरैशी	उपयंत्री	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
22	श्री बी.डब्ल्यू. आगरकर	उपयंत्री	07162	248586	—	—	—	—तदैव—
23	श्री डी.एस. लखेरा	उपयंत्री	07162	248586	—	—	—	—तदैव—

24	श्री डी.एस. चोहान	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	जल संसाधन संभाग छिंद
25	श्री एम.के. पदमाकर	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
26	श्री ओ.एच. पाण्डे	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
27	श्री व्ही. के. डेहरिया	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
28	श्री जे.एम. घोष	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
29	श्री नसरुददीन सिध्दकी	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
30	श्री आर.के. श्रीवास	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
31	श्री एच.एस. खरे	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
32	श्री के.सी. ठाकुर	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
33	श्री एम.के. गजभिये	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
34	श्री सी.एम. बोकडे	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
35	श्री पी.डी. बरडे	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
36	श्री के.एल. शुक्ला	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
37	श्री एस.के. राठौर	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
38	श्री एन.एल. मेश्राम	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
39	श्री एम.एल. ठाकुर	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
40	श्री अतीश बोस	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
41	श्री आर.के. कुल्हाडे	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
42	श्री आर.के. मंसूरी	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
43	श्री जी.पी. गुर्गा	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
44	श्री एम.एस. पराडकर	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
45	श्री के.पी. चौरिया	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
46	श्री एल.के. सक्सेना	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
47	श्री एस.डी. जामकर	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
48	श्री ए.के. जैन	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
49	श्री पी.एल. रजक	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
50	श्री मो. फैयाज	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
51	श्री आर.एस. दरवईकर	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
52	श्री एम.के. विश्वकर्मा	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
53	श्री व्ही.जी. साधवानी	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
54	श्री एस.के. गडकरी	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	---तदैव---

55	श्री एम.डब्ल्यू. क्षीरसागर	उपयंत्री	07162	248586	-	-	-	जल संसाधन संभाग छिंद
56	श्री एन.डी. पंडाग्रे	मानचित्रकार	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
57	श्री आर.एन. सिंग	मानचित्रकार	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
58	श्री प्रभाकर बरुडकर	मानचित्रकार	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
59	श्री दिलीप उडके	सहायक मानचित्रकार	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
60	श्री आर.एल. सूर्यवंशी	सहायक मानचित्रकार	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
61	श्री एम के सहाय	सहायक मानचित्रकार	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
62	श्री एम. आर. घोडे	सहायक मानचित्रकार	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
63	श्री रविसिंह वैश्य	सहायक मानचित्रकार	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
64	श्री एम.के. घोडे	सहायक मानचित्रकार	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
65	श्री किशोर मनकवडे	अनुरेखक	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
66	श्री मोहित वर्मा	स्टेनोग्राफर	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
67	श्री विश्वनाथ पंचभाई	अमीन	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
68	श्री जगदीश कुमार नारंग	अमीन	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
69	भास्कर सेरजे	अमीन	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
70	राजेन्द्र कुमार सूर्यवंशी	अमीन	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
71	श्री आर.सी. चौरसिया	सहायक ग्रेड-2	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
72	श्री व्ही.डी. गोडबोले	सहायक ग्रेड-2	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
73	श्री जी.पी. श्रीवास	सहायक ग्रेड-2	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
74	श्री मो. अफजल	सहायक ग्रेड-2	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
75	कु. कंचन बैस	सहायक ग्रेड-2	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
76	कु. सूर्यकांता गजभिये	सहायक ग्रेड-2	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
77	श्रीमति वाय. कुल्हाडा	सहायक ग्रेड-2	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
78	श्री एस.एस. लव्हाले	सहायक ग्रेड-2	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
79	श्री उसराठे जी	सहायक ग्रेड-2	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
80	श्री बी.एस. पुसाम	सहायक ग्रेड-2	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
81	श्री टी.के. पाठक	सहायक ग्रेड-2	07162	248586	-	-	-	---तदैव---

82	श्री जी.पी. निर्मलकर	सहायक ग्रेड-2	07162	248586	-	-	-	जल संसाधन संभाग छिंद
83	श्री पी.के. पलेरिया	सहायक ग्रेड-3	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
84	श्री एम.एम. राव	सहायक ग्रेड-3	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
85	श्रीमति सरोज तिवारी	सहायक ग्रेड-3	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
86	श्री व्ही. आर. गांवडे	सहायक ग्रेड-3	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
87	श्री एस.एम. बोरकर	सहायक ग्रेड-3	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
88	श्री एम.एस. धुर्वे	सहायक ग्रेड-3	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
89	श्रीमति शशि पंदराम	सहायक ग्रेड-3	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
90	श्रीमति लक्ष्मी पाण्डे	सहायक ग्रेड-3	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
91	श्री पी.सी. धनगुन	सहायक ग्रेड-3	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
92	श्री ए.के. ठाकरे	सहायक ग्रेड-3	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
93	श्री जी.जे. दमदर	सहायक ग्रेड-3	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
94	श्री तिलकचंदभगत	सहायक ग्रेड-3	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
95	श्री एस.आर. वानखेडे	सहायक ग्रेड-3	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
96	श्री व्ही.एस. ठाकुर	सहायक ग्रेड-3	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
97	श्री रम्मू लालमरापे	सहायक ग्रेड-3	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
98	श्री द्वारकादासवैष्णो	सहायक ग्रेड-3	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
99	श्री के.पी. पवार	सहायक ग्रेड-3	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
100	श्री वंशीलाल यादव	दफतरी	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
101	श्री सुकरलाल धुर्वे	भृत्य	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
102	श्री राम उइके	भृत्य	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
103	श्री विश्वनाथ शर्मा	भृत्य	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
104	श्रीमति फुलेश्वरी बारमाटे	भृत्य	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
105	श्री आनन्दराव बगडते	भृत्य	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
106	श्री सतीलाल धुर्वे	भृत्य	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
107	श्री झीना कुमरे	भृत्य	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
108	श्री सुदामकारोकार	भृत्य	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
109	श्री सीताराम कारोकार	भृत्य	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
110	श्री हैदर खान	भृत्य	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
111	श्री रामदास भाँवरकर	भृत्य	07162	248586	-	-	-	---तदैव---
112	श्री रामसिंह इवनाती	भृत्य	07162	248586	-	-	-	---तदैव---

**10.0 प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति**

क्रं.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक/ पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो।
1	2	3	4	5	6
1	श्री के.सी. राठौर	कार्यपालन यंत्री	28114	—	—
2	श्री व्ही.एस. अवस्थी	अनुविभागीय अधिकारी	18759	—	—
3	श्री एस.एस. मुकासदार	अनुविभागीय अधिकारी	17719	—	—
4	श्री पी.एम. काले	अनुविभागीय अधिकारी	21877	—	—
5	श्री व्ही.बी. श्रीवास्तव	अनुविभागीय अधिकारी	23814	—	—
6	श्री आर.एम. कुरैशी	संलग्न अधिकारी	25657	—	—
7	श्री प्रभाकर टेकाम	अनुविभागीय अधिकारी	15120	—	—
8	श्री एन.के. नंदनवार	अनुविभागीय अधिकारी	17719	—	—
9	श्री व्ही.सी. जैन	संभागीय लेखाधिकारी	21496	—	—
10	श्री बी.के. तिवारी	उपयंत्री	19145	—	—
11	श्री संतोष जैन	उपयंत्री	19664	—	—
12	श्री बी. आर. राउत	उपयंत्री	19156	—	—
13	श्री ए.ए. मेहतो	उपयंत्री	19123	—	—
14	श्री डी.एल. डेहरिया	उपयंत्री	19664	—	—
15	श्री जे.के. विश्वकर्मा	उपयंत्री	17153	—	—
16	श्री ए.के. कालबांडे	उपयंत्री	17563	—	—
17	श्री अतिकुलहक	उपयंत्री	19156	—	—
18	श्री बी.आर. पराडकर	उपयंत्री	15617	—	—
19	श्री डी.के. चौरसिया	उपयंत्री	14831	—	—
20	श्री एच.के. पिल्ले	उपयंत्री	14475	—	—
21	श्री एम.पी. कुरैशी	उपयंत्री	19686	—	—
22	श्री बी.डब्ल्यू. आगरकर	उपयंत्री	19512	—	—
23	श्री डी.एस. लखेरा	उपयंत्री	18473	—	—
24	श्री डी.एस. चोहान	उपयंत्री	19293	—	—
25	श्री एम.के. पदमाकर	उपयंत्री	17427	—	—
26	श्री ओ.एच. पाण्डे	उपयंत्री	20838	—	—
27	श्री व्ही. के. डेहरिया	उपयंत्री	14215	—	—



28	श्री जे.एम. घोष	उपयंत्री	19798	—	—
29	श्री नसरुददीन सिध्दकी	उपयंत्री	19278	—	—
30	श्री आर.के. श्रीवास	उपयंत्री	18239	—	—
31	श्री एच.एस. खरे	उपयंत्री	20887	—	—
32	श्री के.सी. ठाकुर	उपयंत्री	18780	—	—
33	श्री एम.के. गजभिये	उपयंत्री	17932	—	—
34	श्री सी.एम. बोकडे	उपयंत्री	18239	—	—
35	श्री पी.डी. बरडे	उपयंत्री	18614	—	—
36	श्री के.एल. शुक्ला	उपयंत्री	20318	—	—
37	श्री एस.के. राठौर	उपयंत्री	19007	—	—
38	श्री एन.एल. मेश्राम	उपयंत्री	18459	—	—
39	श्री एम.एल. ठाकुर	उपयंत्री	19156	—	—
40	श्री अतीश बोस	उपयंत्री	19156	—	—
41	श्री आर.के. कुल्हाडे	उपयंत्री	18625	—	—
42	श्री आर.के. मंसूरी	उपयंत्री	18592	—	—
43	श्री जी.पी. गुर्गा	उपयंत्री	9650	—	—
44	श्री एम.एस. पराडकर	उपयंत्री	18759	—	—
45	श्री के.पी. चौरिया	उपयंत्री	20566	—	—
46	श्री एल.के. सक्सेना	उपयंत्री	18238	—	—
47	श्री एस.डी. जामकर	उपयंत्री	18238	—	—
48	श्री ए.के. जैन	उपयंत्री	18458	—	—
49	श्री पी.एल. रजक	उपयंत्री	17199	—	—
50	श्री मो. फैयाज	उपयंत्री	14731	—	—
51	श्री आर.एस. दरवईकर	उपयंत्री	15309	—	—
52	श्री एम.के. विश्वकर्मा	उपयंत्री	20060	—	—
53	श्री व्ही.जी. साधवानी	उपयंत्री	20736	—	—
54	श्री एस.के. गडकरी	उपयंत्री	14931	—	—
55	श्री एम.डब्ल्यू क्षीरसागर	उपयंत्री	20060	—	—
56	श्री एन.डी. पंडाग्रे	मानचित्रकार	15334	—	—
57	श्री आर.एन. सिंग	मानचित्रकार	14578	—	—
58	श्री प्रभाकर बरुडकर	मानचित्रकार	14956	—	—
59	श्री दिलीप उइके	सहायक मानचित्रकार	10225	—	—
60	श्री आर.एल. सूर्यवंशी	सहायक मानचित्रकार	13028	—	—
61	श्री एम के सहाय	सहायक मानचित्रकार	13028	—	—
62	श्री एम. आर. घोडे	सहायक मानचित्रकार	12757	—	—

63	श्री रविसिंह वैश्य	सहायक मानचित्रकार	9767	—	—
64	श्री एम.के. घोडे	सहायक मानचित्रकार	12994	—	—
65	श्री किशोर मनकवडे	अनुरेखक	8137	—	—
66	श्री मोहित वर्मा	स्टेनोग्राफर	12396	—	—
67	श्री विश्वनाथ पंचभाई	अमीन	9450	—	—
68	श्री जगदीश कुमार नारंग	अमीन	8601	—	—
69	भास्कर सेरजे	अमीन	7715	—	—
70	राजेन्द्र कुमार सूर्यवंशी	अमीन	9073	—	—
71	श्री आर.सी. चौरसिया	सहायक ग्रेड-2	12807	—	—
72	श्री व्ही.डी. गोडबोले	सहायक ग्रेड-2	11251	—	—
73	श्री जी.पी. श्रीवास	सहायक ग्रेड-2	12285	—	—
74	श्री मो. अफजल	सहायक ग्रेड-2	10990	—	—
75	कु. कंचन बैस	सहायक ग्रेड-2	10395	—	—
76	कु. सूर्यकांता गजभिये	सहायक ग्रेड-2	10415	—	—
77	श्रीमति वाय.कुल्हाडा	सहायक ग्रेड-2	11093	—	—
78	श्री एस.एस. लव्हाले	सहायक ग्रेड-2	12542	—	—
79	श्री उसराठे जी	सहायक ग्रेड-2	12049	—	—
80	श्री बी.एस. पुसाम	सहायक ग्रेड-2	8878	—	—
81	श्री टी.के. पाठक	सहायक ग्रेड-2	12305	—	—
82	श्री जी.पी. निर्मलकर	सहायक ग्रेड-2	10037	—	—
83	श्री पी.के. पलेरिया	सहायक ग्रेड-3	10056	—	—
84	श्री एम.एम. राव	सहायक ग्रेड-3	9281	—	—
85	श्रीमति सरोज तिवारी	सहायक ग्रेड-3	8779	—	—
86	श्री व्ही. आर. गांवर्डे	सहायक ग्रेड-3	10036	—	—
87	श्री एस.एम. बोरकर	सहायक ग्रेड-3	8511	—	—
88	श्री एम.एस. धुर्वे	सहायक ग्रेड-3	8278	—	—
89	श्रीमति शशि पंदराम	सहायक ग्रेड-3	7775	—	—
90	श्रीमति लक्ष्मी पाण्डे	सहायक ग्रेड-3	7050	—	—
91	श्री पी.सी. धनगुन	सहायक ग्रेड-3	7624	—	—
92	श्री ए.के. ठाकरे	सहायक ग्रेड-3	7181	—	—
93	श्री जी.जे. दमदर	सहायक ग्रेड-3	7845	—	—
94	श्री तिलकचंद भगत	सहायक ग्रेड-3	7417	—	—
95	श्री एस.आर. वानखेडे	सहायक ग्रेड-3	7324	—	—
96	श्री व्ही.एस. ठाकुर	सहायक ग्रेड-3	8763	—	—
97	श्री रम्मू लाल मरापे	सहायक ग्रेड-3	7929	—	—

98	श्री द्वारकादास वैष्णो	सहायक ग्रेड-3	10003	-	-
99	श्री के.पी. पवार	सहायक ग्रेड-3	8127	-	-
100	श्री वंशीलाल यादव	दफतरी	7506	-	-
101	श्री सुकरलाल धुर्वे	भृत्य	6611	-	-
102	श्री राम उइके	भृत्य	5512	-	-
103	श्री विश्वनाथ शर्मा	भृत्य	6355	-	-
104	श्रीमति फुलेश्वरी बारमाटै	भृत्य	6206	-	-
105	श्री आनन्दराव बगडते	भृत्य	6229	-	-
106	श्री सतीलाल धुर्वे	भृत्य	6660	-	-
107	श्री झीना कुमरे	भृत्य	6078	-	-
108	श्री सुदाम कारोकार	भृत्य	5851	-	-
109	श्री सीताराम कारोकार	भृत्य	6955	-	-
110	श्री हैदर खान	भृत्य	6432	-	-
111	श्री रामदास भोंवरकर	भृत्य	5858	-	-
112	श्री रामसिंह इवनाती	भृत्य	6229	-	-

## 11.0 प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट

(सभी योजनाओं व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

वर्ष 2007-08

स.क्र.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारंभ होने का दिनांक	कार्य के समापन का अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किश्तों में)	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	धनौरा जलाशय	निर्माण कार्य	22.06.04	31.12.07	-	-	-	4.07	कार्यपालन यंत्री, जल संसा. संभाग, छिंदवाडा
2	राजडोंगरी जलाशय	---	03.09.04	30.06.07	50.00	50.00	50.00	41.82	---तदैव---
3	मुर्गीटोला जलाशय	---	15.10.06	14.01.08	100.00	100.00	100.00	40.22	---तदैव---
4	कोकनपिपरिया जला.	---	10.11.06	09.02.08	90.50	90.50	90.50	83.07	---तदैव---
5	पिपरिया गुमानी जला.	---	06.01.06	31.12.07	80.00	80.00	80.00	23.28	---तदैव---
6	घोघरा जलाशय	---	11.03.04	30.07.07	1.00	1.00	1.00	8.21	---तदैव---
7	मोहखेडी जलाशय	---	-	-	1.00	1.00	1.00	10.08	---तदैव---
8	बांकानागनपुर जला.	---	21.03.07	21.06.08	50.00	50.00	50.00	49.45	---तदैव---
9	डोलनखापा जलाशय	---	17.06.06	16.12.07	15.00	15.00	15.00	42.36	---तदैव---
10	पलटवाडा जलाशय	---	22.12.05	30.06.07	60.00	60.00	60.00	0.75	---तदैव---
11	चिरकुटागोंदी जला.	---	23.12.05	30.03.08	115.00	115.00	115.00	2.56	---तदैव---
12	जामलापानी जलाशय	---	24.12.05	22.06.07	40.00	40.00	40.00	19.5	---तदैव---
13	खोरी जलाशय	---	31.05.06	30.11.07	135.00	135.00	135.00	46.1	---तदैव---
14	भंडारगोंदी जलाशय	---	23.12.05	12.12.07	20.00	20.00	20.00	13.37	---तदैव---
15	हिवरासेनेडवार जला.	---	22.12.05	23.06.07	100.00	100.00	100.00	56.70	---तदैव---
16	ढोकढोह जलाशय	---	-	-	100.00	100.00	100.00	0.92	---तदैव---
17	घुडनखापा जलाशय	---	-	-	-	-	-	1.12	---तदैव---

18	पापडा जलाशय	---	-	-	1.50	1.50	1.50	-	---तदैव---
19	बंधान जलाशय	---	-	-	3.00	3.00	3.00	-	---तदैव---
20	घोघरीढाना जलाशय	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
21	हरसदिवारी जलाशय	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
22	पोआमा जलाशय	---	-	-	10.00	10.00	10.00	-	---तदैव---
23	गुरैया जलाशय	---	-	-	5.00	5.00	5.00	-	---तदैव---
24	बागला जलाशय	---	-	-	5.00	5.00	5.00	-	---तदैव---
25	उत्तमडेश जलाशय	---	-	-	5.00	5.00	5.00	-	---तदैव---
26	रामपुरी दावाझिर जलाशय	---	-	-	5.00	5.00	5.00	-	---तदैव---
27	सर्रासांवरी जलाशय	---	-	-	5.00	5.00	5.00	0.06	---तदैव---
28	अंबाखापा जलाशय	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
29	पिण्डरईसराफ जलाशय	---	-	-	5.00	5.00	5.00	2.03	---तदैव---
30	पिपरियाखाती जला.	---	-	-	5.00	5.00	5.00	1.70	---तदैव---
31	बगदरी जलाशय	---	-	-	5.00	5.00	5.00	-	---तदैव---
32	मोरखा जलाशय	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
33	बिछुआसानी जलाशय	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
34	बांद्रा जलाशय	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
35	कांगला जलाशय	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
36	भेडा जलाशय	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
37	रीछननाला जलाशय	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
38	खामीबडेला जलाशय	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
39	फुटेरा जलाशय	---	-	-	0.01	0.01	0.01	-	---तदैव---
40	गुजरखेडी जलाशय	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
41	करनपिपरिया स्टापडेम	---	21.08.06	20.03.07	5.00	5.00	5.00	9.44	---तदैव---

42	चन्हियाकला स्टापडेम	---	25.05.07	24.11.07	7.50	7.50	7.50	6.70	---तदैव---
43	भूला मोहगांव स्टापडेम	---	06.11.07	05.10.07	20.00	20.00	20.00	33.96	---तदैव---
44	हलालखुर्द स्टापडेम	---	-	-	51.00	51.00	51.00	6.16	---तदैव---
45	लोनीबर्रा स्टापडेम	---	21.05.06	20.03.07	5.00	5.00	5.00	19.94	---तदैव---
46	घोघराघाट स्टापडेम	---	-	-	33.00	33.00	33.00	-	---तदैव---
47	जामठी स्टापडेम	---	17.06.06	10.01.07	5.00	5.00	5.00	25.81	---तदैव---
48	मंदरिया स्टापडेम	---	21.08.06	20.03.07	7.00	7.00	5.00	15.80	---तदैव---
49	लोनीबर्रा घाट निर्माण	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
50	रिधोरा घाट निर्माण	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
51	सिंगोडी वियर	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
52	चोपना वियर	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
53	रावरा वियर	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
54	लोहांगी वियर	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
55	पलटवाडा वियर	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
56	जामनदी व्यपवर्तन योजना	---	-	-	-	-	-	-	---तदैव---
	<b>योग :-</b>				<b>1145.51</b>	<b>1145.51</b>	<b>1143.51</b>		

## 12.0 अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

○ कार्यक्रम/योजना का नाम	निरंक
○ कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा	
○ कार्यक्रम का उद्देश्य	
○ कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)	
○ लाभार्थी की पात्रता	
○ पूर्वापेक्षाएं	
○ अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	
○ पात्रता निश्चित करने के लिए मानदण्ड	
○ दिए जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)	
○ अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया	
○ आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें।	
○ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	
○ अन्य शुल्क (जहां उचित हो)	
○ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)	
○ संलग्नकों की सूची	
○ संलग्नकों का प्रारूप	
○ प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें	
○ उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर, जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)	

### ◇ लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर)

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वर्द्धित	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला/गंवा	मकान नम्बर
निरंक								

### 13.0 रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

◇ कार्यक्रम का नाम	निरंक
◇ प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुनें)	
◇ उद्देश्य	
◇ लक्ष्य (विगत वर्ष में)	
◇ पात्रता	
◇ पात्रता का आधार	
◇ पूर्वापेक्षाएं	
◇ प्राप्त करने की प्रक्रिया	
◇ रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिए जाने के लिए निर्धारित समय सीमा	
◇ आवेदन शुल्क	
◇ आवेदन पत्र का प्रारूप	
◇ संलग्नकों की सूची	
◇ संलग्नकों का प्रारूप	

#### ◇ प्राप्तिकर्ताओं की सूची (निम्न प्रारूप पर)

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	प्राप्तिकर्ता का नाम	वैधता किस दिनांक तक है	वर्ल्डयत	निवास			
				जिला	शहर	मोहल्ला/ग ंव	मकान नं.
निरंक							

रियायत के लिए निम्न जानकारी भी उपलब्ध कराएं :

- ◇ दिए जाने वाले लाभ का विवरण निरंक
- ◇ लाभ के वितरण की प्रक्रिया निरंक



## 14.0 कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

### अधिनियम

1. म.प्र. सिंचाई अधिनियम 1931
2. सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 1999
3. म.प्र. लेखा संहिता

### मैनुअल

1. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-1
2. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-2
3. म.प्र. कार्य विभाग नियमावली 1983, भाग-3

### नियम

1. म.प्र. सिंचाई अभियांत्रिकी एवं भू-भौतिकी (राजपत्रित भर्ती नियम 1965)
2. म.प्र. सिंचाई (अराजपत्रित) भर्ती नियम 1969

### परिपत्र

1. म.प्र. जल संसाधन विभाग द्वारा जारी समस्त तकनीकी परिपत्र
2. म.प्र. जल संसाधन विभाग की प्रचलित एकीकृत दर सूची 2003
3. म.प्र. जल संसाधन विभाग के स्पेसिफिकेशन्स

## 15.0 इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाएं

जल संसाधन विभाग की वेबसाइट [www.mpwrд.nic.in](http://www.mpwrд.nic.in) पर उपलब्ध है।

## 16.0 सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण

● कार्यालय का सूचना पटल	
● विभागीय वेबसाइट	
● दस्तावेजों को प्राप्त करने हेतु सूचना काउंटर	

## 17.0 अन्य उपयोगी जानकारियां

17.1 लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर.

सिंचाई योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं विवरण

17.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में

● आवेदन पत्र ( तथा संदर्भ के लिए एक भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति)	प्रारूप आवेदन पत्र संलग्न है।
● शुल्क	विभाग के प्रावधान अनुसार
● सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जाए- कुछ टिप्स	लिखित आवेदन द्वारा
● सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया	अपीलीय अधिकारी अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) कार्यालय मुख्य अभियंता को आवेदन देकर

17.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में .

● प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम व विवरण	निरंक
● प्रशिक्षण कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय-सीमा	
● प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य	
● प्रशिक्षण कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)	
● लाभार्थी की पात्रता	
● पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)	
● अनुदान/सहायता (यदि हो तो)	
● दिए जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)	
● अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया	
● आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें	
● आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	
● अन्य शुल्क (जहां उचित हो)	
● आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)	
● संलग्नकों की सूची	
● संलग्नकों का प्रारूप	
● आवेदन करने की प्रक्रिया	
● चयन प्रक्रिया	
● प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारिणी (यदि हो तो)	
● प्रशिक्षण के समय के बारे में आवेदक को सूचित करने का तरीका	
● प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्य	
● विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की सूची तथा अन्य विवरण	

17.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि के संबंध में जो कि मैनुअल 13 में न सम्मिलित हो.

■ प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि का नाम व विवरण	निरंक
■ प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता	
■ आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें	
■ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	
■ अन्य शुल्क (जहां उचित हो)	
■ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)	
■ संलग्नकों की सूची	
■ संलग्नकों का प्रारूप	
■ आवेदन करने की प्रक्रिया	
■ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदन द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं)	
■ आवेदन की सारी प्राथमिकताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, आदि जारी करने के लिए निर्धारित समय अवधि	
■ प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समय सीमा (यदि हो तो)	
■ नवीनीकरण की प्रक्रिया (यदि हो तो)	

## 17.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में

■ पंजीयन का उद्देश्य	विभागीय कार्यों को वर्ग-स श्रेणी के ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाना
■ आवेदक की पात्रता	विभागीय नियमानुसार
■ पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)	व्यवसायिक कार्यक्षमता
■ आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें	संभागीय लेखाधिकारी
■ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	विभाग द्वारा निर्धारित
■ अन्य शुल्क (जहां उचित हो)	—
■ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करै)	विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र
■ संलग्नकों की सूची	निर्धारित जानकारी से संबंधित सहपत्र
■ संलग्नकों का प्रारूप	निर्धारित है।
■ आवेदन करने की प्रक्रिया	निर्धारित प्रपत्र में आवेदन वांछित अभिलेखों का प्रमाणित प्रति सहित।
■ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं)	आवेदन का विभाग के नियमानुसार परीक्षण किया जाता है।
■ प्रभावी रहने की समय-सीमा (यदि हो तो)	पांच साल
■ नवीनीकरण की प्रक्रिया	समय सीमा समाप्त होने के तीन माह पूर्व आवेदन देने पर

## 17.6 लोक प्राधिकरण (Municipal Corporation, Trade tax, entertainment tax, आदि) द्वारा टैक्स लेने के संबंध में.

■ टैक्स का नाम व विवरण	निरंक
■ टैक्स लेने का उद्देश्य	
■ टैक्स निर्धारण करने के लिए मापदंड व प्रक्रिया	
■ बड़े उद्योगों/डिफाल्टर्स की सूची	

## 17.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाले बिजली/पानी के कनेक्शन, कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन आदि के संबंध में (यह सूचना स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर द्वारा दी जा सकती है)

■ आवेदक की पात्रता	
■ पूर्वापेक्षाएं (यदि हो तो)	
■ आवेदन करने के लिए कहां/किससे सम्पर्क करें	
■ आवेदन शुल्क (जहां उचित हो)	
■ अन्य शुल्क/देय (जहां उचित हो)	

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएं कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)</li> </ul>	निरंक
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ संलग्नों की सूची</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ संलग्नों का प्रारूप</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आवेदन करने की प्रक्रिया</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ आवेदन करने के बाद लोक प्राधिकरण में होने वाली प्रक्रिया (यहां पर उस प्रक्रिया का विवरण दें जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात लोक प्राधिकरण द्वारा की जाती हैं)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ बिल में प्रयोग किए गए शब्दों का विवरण</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ बिल तथा अन्य सेवाओं के संबंध में समस्या होने की स्थिति में सम्पर्क सूचना</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ टेरिफ तथा अन्य देय</li> </ul>	

17.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण

निरंक

**(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) (1) के अंतर्गत)**

1. आवेदक का नाम .....
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है .....
3. दूरभाष क्रमांक .....
4. आवेदन देने का दिनांक .....
5. कार्यालय का नाम .....
6. चाही गई जानकारी का विवरण .....
7. क्या चाहते हैं नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना
8. आवेदन के साथ अदा किया जाने वाले प्रोसेस फी-रूपये 5/- नगद/स्टॉम्प (बीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं)  
रसीद क्रं. एवं दिनांक .....
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं- हाँ/नहीं  
यदि हो तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक .....

हस्ताक्षर  
(आवेदनकर्ता)

**टीपः-** यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये 5 का स्टॉम्प चस्पा करते हुए रजिस्टर्ड/यूपीसी/डाक व्यय सहित स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें। (बीपीएल सूची के सदस्य को डाक व्यय देय नहीं)

**पावती**

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक .....
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक .....
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी .....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
(लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना  
अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)  
पदनाम (रबर सील), दिनांक.....

\*\*\***(Source: E.E W.R.D Chhindwara)**\*\*\*

**Last Updated: 16/11/2007**